

अनुक्रमांक .....

नाम .....

# 932

# 825(OC)

## 2021

### सामाजिक विज्ञान

समय : तीन घन्टे 15 मिनट ]

[ पूर्णांक : 70

**नोट :** प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढने के लिए निर्धारित हैं ।

- निर्देश:**
- यह प्रश्नपत्र दो खण्डों क एवं ख में विभाजित है । प्रत्येक खण्ड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है । प्रत्येक खण्ड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारम्भ किया जाए ।
  - प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं ।
  - प्रश्नपत्र में चार प्रकार के प्रश्न हैं – बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय, जिनके सम्बन्ध में निर्देश उनके आरम्भ में दिए गए हैं ।
  - क तथा ख खण्डों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर-पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है ।
  - दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खण्ड – क में प्रश्न संख्या 14 तथा खण्ड – ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं ।

### खण्ड – क

**निर्देश :** निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए :

1. राष्ट्रवाद का प्रारम्भ जिस देश से हुआ, वह है
  - क) जर्मनी
  - ख) इटली
  - ग) फ्रांस
  - घ) इंग्लैंड
  
2. असहयोग आन्दोलन का मुख्य कारण क्या था?
  - क) रॉलट एक्ट
  - ख) प्रथम विश्वयुद्ध
  - ग) खिलाफत आन्दोलन
  - घ) चौरी-चौरा की घटना |
  
3. 'करो या मरो' का नारा किसका था?
  - क) सुभाष चन्द्र बोस
  - ख) चंद्रशेखर आजाद
  - ग) भगत सिंह
  - घ) महात्मा गाँधी |
  
4. इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया?
  - क) ज्युसेपे गैरीबाल्डी

- ख) ऑटो वान विस्मार्क
- ग) नेपोलियन
- घ) विलियम प्रथम |

5. भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं?

- क) 27
- ख) 28
- ग) 29
- घ) 30

6. निम्नलिखित में से कौन-सा राजनितिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है?

- क) भारतीय जनता पार्टी
- ख) इंडियन नेशनल कांग्रेस
- ग) बहुजन समाज पार्टी
- घ) समाजवादी पार्टी |

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

7. जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ?

8. लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है | इसके दो कारण बताइए |
9. भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियाँ बताइए |

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

10. साम्प्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है? दो तर्क दीजिए |

अथवा

उत्तरदायी शासन क्या है? इसकी दो विशेषताएं बताइए |

11. मुद्रण संस्कृति क्या है? इसमें चीन की क्या भूमिका है?

अथवा

गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है?

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

12. संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की चार विशेषताएं बताइए |

अथवा

विकेंद्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई? किन्ही चार का उल्लेख कीजिए |

13. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अंतराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएँ थीं? इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया?

अथवा

विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया? इसमें तकनीकी का क्या योगदान है?

(मानचित्र सम्बन्धी पश्च)

निर्देश : निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिये गये रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए | सही नाम तथा सही अंकन के लिए अंक निर्धारित हैं:

- i) वह स्थान जहाँ से महात्मा गाँधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया |
- ii) वह स्थान जहाँ जलियाँवाला बाग की घटना घटी |
- iii) वह स्थान जहाँ सितम्बर, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ |
- iv) वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित किया |
- v) वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ |

---

The End

---

- ❖ [यूपी बोर्ड बुक्स फ्री डाउनलोड करें](#)
- ❖ [यूपी बोर्ड सिलेबस](#)
- ❖ [यूपी बोर्ड मॉडल पेपर्स](#)
- ❖ [यूपी बोर्ड टाइम टेबल](#)

GKPAD.COM